



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 349]
No. 349]

नई दिल्ली, बुधस्पर्तिवार, जुलाई 26, 1984/श्रावण 4, 1906
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 1984/SRAVANA 4, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

पटसन आयुक्त का कार्यालय

कलकत्ता, 26 जुलाई, 1984

अधिसूचना

का० घा० 530 (अ).—पटसन (अनुशासन एवं नियंत्रण) आदेश 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए पटसन आयुक्त एतद्वारा इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में उल्लिखित कीमतें मत्काल प्रभावी न्यूनतम कीमतों के रूप में निश्चित करते हैं जिन कीमतों पर अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न किम्बों एवं श्रेणियों के पटसन और मेन्ना के क्रय अथवा विक्रय कलकत्ता जुलाई, 1984 से जून 1985 वर्ष के दौरान किया जायेगा।

संक्षेप :-

1. इस अधिसूचना में अनुसूचित अनुसूची में उल्लिखित पश्चिम बंगाल मूल के पटसन एवं मेन्ना की कीमतें, कच्चे पटसन पर पश्चिम बंगाल राज्य में वर्तमान समय में लागू होने वाले मंगल कानून के अन्तर्गत लगे क्रय-कर के अतिरिक्त होगी।

2. वर्तमान भारतीय मानक संस्था विनिर्देशन सं० आई० एम० 271-1975 (अवसन संशोधित) के अनुसार श्रेणिबद्ध विनिर्देशन संकेतों से एवं दृष्टि से को समर्थन किया जायेगा।

3. इस अधिसूचना में अनुसूचित अनुसूची में उल्लिखित कीमतों उन करारों के लिए लागू होंगी जो माल की कीमतों बिना किसी अतिरिक्त समय लिए अंगुल के लिए प्रस्तुत कर देंगे।

[काहल सं० 7/1/84-जु०]

अनुसूची

1984-85 मीसम के लिए कलकत्ता में जूट और मसुदा की विभिन्न किस्मों और ग्रेडों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम कीमत।

₹० प्रति सिब्टल

| राज्य का नाम | किस्म | ग्रेडम | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | उत्कल्प-1 टीडी-1 | उत्कल्प-2 टीडी-2 | उत्कल्प-3 टीडी-3 | उत्कल्प-4 टीडी-4 | उत्कल्प-5 टीडी-5 | उत्कल्प-6 टीडी-6 | उत्कल्प-7 टीडी-7 | उत्कल्प-8 टीडी-8 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| पश्चिम बंगाल | सफेद | 319.00 | 304.00 | 289.00 | 274.00 | 259.00 | 249.00 | 239.00 | 229.00 |
| | नीला | 331.50 | 316.50 | 301.50 | 286.50 | 271.50 | 261.50 | 251.50 | 241.50 |
| अन्य राज्य | सफेद | 330.00 | 315.00 | 300.00 | 285.00 | 270.00 | 260.00 | 250.00 | 240.00 |
| | नीला | 342.50 | 327.50 | 312.50 | 297.50 | 282.50 | 272.50 | 262.50 | 252.50 |

| राज्य का नाम | किस्म | ग्रेडम | | | | | | ₹० प्रति सिब्टल |
|-----------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------|----------|-----------|-----------------|
| | | प्राइमरी टाय | मैगल मिडिल | मिडिल | बाटम | बी० बाटम | एक्स बाटम | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. असम | असम मेस्ता | 281.00 | 271.00 | 261.00 | 251.00 | 234.00 | 231.00 | |
| 2. मेघालय | मेघालय मेस्ता | 281.00 | 271.00 | 261.00 | 251.00 | 234.00 | 231.00 | |
| 3. त्रिपुरा | अगरतला मेस्ता | 286.00 | 276.00 | 266.00 | 256.00 | 239.00 | 236.00 | |
| 4. बिहार | | | | | | | | |
| | बिहार डेसल | मेस्ता | 279.00 | 269.00 | 259.00 | 249.00 | 232.00 | 229.00 |
| | सेलेक्टेड बिहार | मेस्ता | 267.00 | 257.00 | 247.00 | 237.00 | 220.00 | 217.00 |
| | किशनगंज | मेस्ता | 282.00 | 272.00 | 262.00 | 232.00 | 235.00 | 232.00 |
| | अकिया | मेस्ता | 265.00 | 255.00 | 245.00 | 235.00 | 218.00 | 215.00 |
| 5. उड़ीसा | | | | | | | | |
| | फटक | मेस्ता | 276.50 | 266.50 | 256.00 | 246.50 | 229.50 | 226.50 |
| | बालासोर | मेस्ता | 262.00 | 252.00 | 242.00 | 232.00 | 215.00 | 212.00 |
| 6. पश्चिम बंगाल | | | | | | | | |
| | जसरी | मेस्ता | 271.50 | 261.50 | 251.50 | 241.50 | 224.50 | 221.50 |
| | सेमी माईन | मेस्ता | 276.00 | 266.00 | 256.00 | 246.00 | 229.00 | 226.00 |
| | पश्चिम बंगाल डेसल | मेस्ता | 273.50 | 263.50 | 253.50 | 243.50 | 226.50 | 223.50 |
| | सेलेक्टेड मुंशिवाबाद | मेस्ता | 271.50 | 261.50 | 251.50 | 241.50 | 224.50 | 221.50 |
| | मुंशिवाबाद | मेस्ता | 259.00 | 249.00 | 239.00 | 229.00 | 212.00 | 209.00 |
| | देशी | मेस्ता | 272.50 | 262.50 | 252.50 | 242.50 | 225.50 | 222.50 |
| 7. आंध्र प्रदेश | बिमली | | 272.50 | 262.50 | 252.50 | 242.50 | 225.50 | 222.50 |

टिप्पणी :—कालम संख्या 2 में बताई गई मेस्ता की किस्मों में विभिन्न व्यापार नाम/नामों के अन्तर्गत मेस्ता की मिक्सी-जुलती किस्म भी शामिल है।

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

Office of the Jute Commissioner

Calcutta, the 26th July, 1984

NOTIFICATION

S.O. 530(E) :—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961 the Jute Commissioner hereby fixes, with immediate effect, the prices mentioned in the Schedule appended to this notification as minimum prices at which jute and mesta of different varieties and grades specified in the said Schedule shall be purchased or sold in Calcutta during the year July, 1984 to June, 1985.

EXPLANATIONS :

- (i) The prices of jute and mesta of West Bengal origin mentioned in the Schedule appended to this notification shall be exclusive of purchase tax as levied under the relevant law for the time being in force in the State of West Bengal on raw jute;
- (ii) The gradewise specifications of white and tossa/daisoe jute shall conform to the current ISI specification No. IS : 271—1975 (as amended upto date) in all respects; and
- (iii) The prices mentioned in the Schedule appended to this notification shall be applicable to contracts which provide for the payment of price of goods at sight without any grace period.

[File No. 7/1/84-Jute]

SCHEDULE

Minimum prices fixed for different varieties and grades of Jute & Mesta at Calcutta for the 1984-85 season

(Rs./per quintal)

| | | G R A D E S | | | | | | | |
|---------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Name of State | Variety | W—1 TD—1 | W—2 TD—2 | W—3 TD—3 | W—4 TD—4 | W—5 TD—5 | W—6 TD—6 | W—7 TD—7 | W—8 TD—8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| West Bengal | White | 319.00 | 304.00 | 289.00 | 274.00 | 259.00 | 249.00 | 239.00 | 229.00 |
| | Tossa | 331.50 | 316.50 | 301.50 | 286.50 | 271.50 | 261.50 | 251.50 | 241.50 |
| Other States | White | 330.00 | 315.00 | 300.00 | 285.00 | 270.00 | 260.00 | 250.00 | 240.00 |
| | Tossa | 342.50 | 327.50 | 312.50 | 297.50 | 282.50 | 272.50 | 262.50 | 252.50 |

| MESTA | | G R A D E S | | | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| Name of the State | Variety | Ordinary Top | Special Middle | Middle | Bottom | B. Bottom | X. Bottom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Assam | Assam Mesta | 281.00 | 271.00 | 261.00 | 251.00 | 234.00 | 231.00 |
| 2. Meghalaya | Meghalaya Mesta | 281.00 | 271.00 | 261.00 | 251.00 | 234.00 | 231.00 |
| 3. Tripura | Agartala Mesta | 286.00 | 276.00 | 266.00 | 256.00 | 239.00 | 236.00 |
| 4. Bihar | | | | | | | |
| | Bihar Desai Mesta | 279.00 | 269.00 | 259.00 | 249.00 | 232.00 | 229.00 |
| | Selected Bihar Mesta | 267.00 | 257.00 | 247.00 | 237.00 | 220.00 | 217.00 |
| | Kishanganj Mesta | 282.00 | 272.00 | 262.00 | 252.00 | 235.00 | 232.00 |
| | Chakia Mesta | 265.00 | 255.00 | 245.00 | 235.00 | 218.00 | 215.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5 Orissa : | | | | | | | |
| Cuttack | Mesta | 276.50 | 266.50 | 256.50 | 246.50 | 229.50 | 226.50 |
| Balasore | Mesta | 262.00 | 252.00 | 242.00 | 232.00 | 215.00 | 212.00 |
| 6 West Bengal : | | | | | | | |
| Northern | Mesta | 271.50 | 261.50 | 251.50 | 241.50 | 224.50 | 221.50 |
| Semi-Northern | Mesta | 276.00 | 266.00 | 256.00 | 246.00 | 229.00 | 226.00 |
| West Bengal Desal | Mesta | 273.50 | 263.50 | 253.50 | 243.50 | 226.50 | 223.50 |
| Selected Murshidabad | Mesta | 271.50 | 261.50 | 251.50 | 241.50 | 224.50 | 221.50 |
| Murshidabad | Mesta | 259.00 | 249.00 | 239.00 | 229.00 | 212.00 | 209.00 |
| Daisee | Mesta | 272.50 | 262.50 | 252.50 | 242.50 | 225.50 | 222.50 |
| 7 Andhra Pradesh | Bimli | 272.50 | 262.50 | 252.50 | 242.50 | 225.50 | 222.50 |

NOTE :—The varieties of Mesta specified in column 2 also include similar varieties of Mesta under different trade name/names.

अधिसूचना

क्र० आ० 531 (अ) :—पटसन (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1981 के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए पटसन आयोग इस अधिसूचना से उपबिन्द अनुसूची में उल्लिखित कीमतों को न्यूनतम कीमत के रूप में नियत करते हैं, तत्काल लागू होना, जिस पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न किस्मों एवं श्रेणियों का कच्चा पटसन और मेस्ता जुलाई, 1984 से जून, 1985 वर्ष के दौरान उसमें दिये गये विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्देशीय बाजारों में क्रय या विक्रय किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :—

इस अधिसूचना से उपाबिन्द अनुसूची में उल्लिखित कीमतें क्रय कर विक्रय उद्घरण एवं कमीशन रहित होगी।

[फाइल सं. 7/1/84-जूट]

एस० पी० मल्लिक, पटसन प्रायुक्त

1984-85 मौसम के लिए विभिन्न जूट तथा मेस्ता उपजकर्ता राज्यों के देहली बाजारों में कच्चे जूट को विभिन्न किस्मों और ग्रेडों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम कीमतें।

सफेद तथा तोसा/बेसी

(र. प्रति बिन्दल)

| क्रम सं० | राज्य का नाम | किस्म | ग्रेडस | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | स-1 तो दे-1 | स-2 तो दे-2 | स-3 तो दे-3 | स-4 तो दे-4 | स-5 तो दे-5 | स-6 तो दे-6 | स-7 तो दे-7 | स-8 तो दे-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | असम | सफेद | 255.00 | 240.00 | 225.00 | 210.00 | 195.00 | 185.00 | 175.00 | 165.00 |
| | मेघालय | | | | | | | | | |
| | त्रिपुरा | तोसा | 267.50 | 252.50 | 237.50 | 222.50 | 207.50 | 197.50 | 187.50 | 177.50 |
| 2. | बिहार : | | | | | | | | | |
| | (1) पूर्णिया तथा कटिहार जिले | सफेद | 265.50 | 250.50 | 235.50 | 220.50 | 205.50 | 195.50 | 185.50 | 175.50 |
| | | तोसा | 278.00 | 263.00 | 248.00 | 233.00 | 218.00 | 208.00 | 198.00 | 188.00 |
| | (2) महरसा, चम्पारन तथा अन्य जिले | सफेद | 264.50 | 249.50 | 234.50 | 219.50 | 204.50 | 194.50 | 184.50 | 174.50 |
| | | तोसा | 277.00 | 262.00 | 247.00 | 232.00 | 217.00 | 207.00 | 197.00 | 187.00 |
| 3. | उड़ीसा | सफेद | 269.50 | 254.50 | 239.50 | 224.50 | 209.50 | 199.50 | 189.50 | 179.50 |
| | | तोसा | 282.00 | 267.00 | 252.00 | 237.00 | 222.00 | 212.00 | 202.00 | 192.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4. प० बंगाल | | | | | | | | | | |
| (1) कुश् बिहार, जल- पाईगुड़ी तथा वाजिसिंग जिले | सफेद | | 262.50 | 247.50 | 232.50 | 217.50 | 202.50 | 192.50 | 182.50 | 172.50 |
| | तोसा | | 275.00 | 260.00 | 245.00 | 230.00 | 215.00 | 205.00 | 195.00 | 185.00 |
| (2) प० दिमाजपुर तथा मान्दा जिले | सफेद | | 267.50 | 252.50 | 237.50 | 222.50 | 207.50 | 197.50 | 187.50 | 177.50 |
| | तोसा | | 280.00 | 265.00 | 250.00 | 235.00 | 220.00 | 210.00 | 200.00 | 190.00 |
| (3) मुसिदाबाद, बां कुडा तथा वीर भूम जिले | सफेद | | 270.50 | 255.50 | 240.50 | 225.50 | 210.50 | 200.50 | 190.50 | 180.50 |
| | तोसा | | 283.00 | 268.00 | 253.00 | 238.00 | 223.00 | 213.00 | 203.00 | 193.00 |
| (4) नविदा, मिबनापुर, जयबान, 24 परगना, हुगली तथा हुवडा जिले | सफेद | | 273.50 | 258.50 | 243.50 | 228.50 | 213.50 | 203.50 | 193.50 | 183.50 |
| | तोसा | | 286.00 | 271.00 | 256.00 | 241.00 | 226.00 | 216.00 | 206.00 | 196.00 |
| 5. उत्तर प्रदेश | सफेद | | 270.50 | 255.50 | 240.50 | 225.50 | 210.50 | 200.50 | 190.50 | 180.50 |
| | तोसा | | 283.00 | 268.00 | 253.00 | 238.00 | 223.00 | 213.00 | 203.00 | 193.00 |
| 6. आन्ध्र प्रदेश | सफेद | | 274.00 | 259.00 | 244.00 | 229.00 | 214.00 | 204.00 | 194.00 | 184.00 |
| | तोसा | | | | | | | | | |

मेस्ता

(र० प्रति मिन्टल)

| क्रम सं. राज्य का नाम क्रिसम | | | श्रेणी | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------|--------|------------|-----------|
| | | | श्री० टाय | एन मिडिल | मिडिल | बाटम | श्री० बाटम | एक्स बाटम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | असम | असम मेस्ता | 201.50 | 191.50 | 181.50 | 171.50 | 154.50 | 151.50 |
| 2. | मेघालय | मेघालय मेस्ता | 201.50 | 191.50 | 181.50 | 171.50 | 154.50 | 151.50 |
| 3. | त्रिपुरा | अगरतला मेस्ता | 207.50 | 197.50 | 187.50 | 177.50 | 160.50 | 157.50 |
| 4. | बिहार | बिहार डेसल मेस्ता | 211.00 | 201.00 | 191.00 | 181.00 | 161.00 | 161.00 |
| | | सेलेक्टेड बिहार तथा बिहार मेस्ता | 195.00 | 185.00 | 175.00 | 165.00 | 148.00 | 145.00 |
| | | किमम गंज मेस्ता | 215.00 | 205.00 | 195.00 | 185.00 | 168.00 | 165.00 |
| | | बकिया मेस्ता | 189.50 | 179.50 | 169.50 | 159.50 | 142.50 | 139.50 |
| 5. | उड़ीसा | कटक मेस्ता | 213.00 | 203.00 | 193.00 | 183.00 | 166.00 | 163.00 |
| | | बालासोर मेस्ता | 198.50 | 188.50 | 178.50 | 168.50 | 151.50 | 148.50 |
| | | गंजम तथा कोरा पुट मेस्ता | 205.00 | 196.00 | 186.00 | 176.00 | 159.00 | 156.00 |
| 6. प० बंगाल | | | | | | | | |
| (1) | कुश् बिहार, जलपाईगुड़ी वाजिसिंग जिले | नीदर्न मेस्ता | 207.00 | 197.00 | 187.00 | 177.00 | 160.00 | 157.00 |
| (2) | वेस्ट बीनाजपुर जिले | सेमी मार्बल मेस्ता | 216.00 | 206.00 | 196.00 | 186.00 | 169.00 | 166.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (3) | मालवा जिले | वेस्ट बंगाल डेम्बल मेस्ता | 216.50 | 206.50 | 196.50 | 186.50 | 169.50 | 166.50 |
| (4) | मुर्शिदाबाद जैकुंडा तथा बीरभूमि जिले | रोलेन्टेड मुर्शिदाबाद मेस्ता | 218.50 | 208.50 | 198.50 | 188.50 | 171.50 | 168.50 |
| | | मुर्शिदाबाद मेस्ता | 204.00 | 194.00 | 184.00 | 174.00 | 157.00 | 154.00 |
| (5) | नरिया, मिदनापुर, बरेबाद-24 परगना, हुगली तथा हावड़ा जिले | देसी मेस्ता | 223.50 | 213.50 | 203.50 | 193.50 | 176.50 | 173.50 |
| 7. | मध्य प्रदेश | एम. पी. मेस्ता | 204.00 | 194.00 | 184.00 | 174.00 | 157.00 | 154.00 |
| 8. | उत्तर प्रदेश | लखीमपुर मेस्ता | 205.50 | 195.50 | 185.50 | 175.50 | 158.50 | 155.50 |
| 9. | प्रादेश प्रदेश | बिमली | 212.50 | 202.50 | 192.50 | 182.50 | 165.50 | 162.50 |

टिप्पणी :—कालम नं० 3 में बताई गई मेस्ता की किस्मों में विभिन्न व्यापार नाम/नामों के अन्तर्गत मेस्ता की मिलनी-बूनी किस्म भी शामिल हैं।

NOTIFICATION

S.O. 531(E):—In exercise of the powers conferred by Clause-8 of the Jute (Licensing & Control) Order, 1961, the Jute Commissioner hereby fixes, with immediate effect, the prices mentioned in the Schedule appended to this notification as the minimum prices at which jute and mesta of different varieties and grades specified in the said Schedule shall be purchased or sold at the up-country markets in different areas mentioned therein during the year July, 1984, to June, 1985.

EXPLANATION :

The prices mentioned in the Schedule appended to this notification shall be exclusive of purchase tax, sales tax, market levies and commission

[File No 7/1/84-Jute]

S. P. MALLIK, Jute Commissioner

Minimum Prices fixed for different varieties and grades of Raw Jute at the up-country markets in Different Jute and Mesta Growing States for the 1984-1985 season

WHITE & TOSSA/DAISEE

(Rs /per quintal)

| Sl. No. | Name of State | Variety | G R A D E S | | | | | | | |
|---------|---|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 | W-6 | W-7 | W-8 |
| | | | TD-1 | TD-2 | TD-3 | TD-4 | TD-5 | TD-6 | TD-7 | TD-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Assam | | | | | | | | | |
| | Meghalaya | White | 255.00 | 240.00 | 225.00 | 210.00 | 195.00 | 185.00 | 175.00 | 165.00 |
| | Tripura | Tossa | 267.50 | 252.50 | 237.50 | 222.50 | 207.50 | 197.50 | 187.50 | 177.50 |
| 2 | Bihar : | | | | | | | | | |
| | (i) Purnea & Katihar Distt. | White | 265.50 | 250.50 | 235.50 | 220.50 | 205.50 | 195.50 | 185.50 | 175.50 |
| | | Tossa | 278.00 | 263.00 | 248.00 | 233.00 | 218.00 | 208.00 | 198.00 | 188.00 |
| | (ii) Saharsa, Champaran and Other Districts | White | 264.50 | 249.50 | 234.50 | 219.50 | 204.50 | 194.50 | 184.50 | 174.50 |
| | | Tossa | 277.00 | 262.00 | 247.00 | 232.00 | 217.00 | 207.00 | 197.00 | 187.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3. | Orissa | White Tossa | 269.50 282.00 | 254.50 267.00 | 239.50 252.00 | 224.50 237.00 | 209.50 222.00 | 199.50 212.00 | 189.50 202.00 | 179.50 192.00 |
| 4. | West Bengal : | | | | | | | | | |
| | (i) Coochbehar, Jalpaiguri & Dujeling Districts | White Tossa | 262.50 275.00 | 247.50 260.00 | 232.50 245.00 | 217.50 230.00 | 202.50 215.00 | 192.50 205.00 | 182.50 195.00 | 172.50 185.00 |
| | (ii) West Dinajpur & Malda Districts | White Tossa | 267.50 280.00 | 252.50 265.00 | 237.50 250.00 | 222.50 235.00 | 207.50 220.00 | 197.50 210.00 | 187.50 200.00 | 177.50 190.00 |
| | (iii) Murshidabad, Bankura & Birbhum Districts | White Tossa | 270.50 283.00 | 255.50 268.00 | 240.50 253.00 | 225.50 238.00 | 210.50 223.00 | 200.50 213.00 | 190.50 203.00 | 180.50 193.00 |
| | (iv) Nadia, Midnapur, Burdwan, 24-Parganas, Hooghly & Howrah Districts | White Tossa | 273.50 286.00 | 258.50 271.00 | 243.50 256.00 | 228.50 241.00 | 213.50 226.00 | 203.50 216.00 | 193.50 206.00 | 183.50 196.00 |
| 5. | Uttar Pradesh | White Tossa | 270.50 283.00 | 255.50 268.00 | 240.50 253.00 | 225.50 238.00 | 210.50 223.00 | 200.50 213.00 | 190.50 203.00 | 180.50 193.00 |
| 6. | Andhra Pradesh | White | 274.00 | 259.00 | 244.00 | 229.00 | 214.00 | 204.00 | 194.00 | 184.00 |

MESTA

(Rs./per quintal)

| Sl. No. | Name of State | Variety | G R A D E S | | | | | |
|---------|--|--------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | O TOP | S. MID | MID | BOT | B. BOT | X BOT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Assam | Assam Mesta | 201.50 | 191.50 | 181.50 | 171.50 | 154.50 | 151.50 |
| 2. | Meghalaya | Meghalaya Mesta | 201.50 | 191.50 | 181.50 | 171.50 | 154.50 | 151.50 |
| 3. | Tripura | Agartala Mesta | 207.50 | 197.50 | 187.50 | 177.50 | 160.50 | 157.50 |
| 4. | Bihar | Bihar Desal Mesta | 211.00 | 201.00 | 191.00 | 181.00 | 164.00 | 161.00 |
| | | Selected Bihar and Bihar Mesta | 195.00 | 185.00 | 175.00 | 165.00 | 148.00 | 145.00 |
| | | Kishanganj Mesta | 215.00 | 205.00 | 195.00 | 185.00 | 168.00 | 165.00 |
| | | Chakia Mesta | 189.50 | 179.50 | 169.50 | 159.50 | 142.50 | 139.50 |
| 5. | Orissa | Cuttack Mesta | 213.00 | 203.00 | 193.00 | 183.00 | 166.00 | 163.00 |
| | | Balasore Mesta | 198.50 | 188.50 | 178.50 | 168.50 | 151.50 | 148.50 |
| | | Ganjam & Korapur Mesta | 206.00 | 196.00 | 186.00 | 176.00 | 159.00 | 156.00 |
| 6. | West Bengal : | | | | | | | |
| | 6 (i) Coochbehar, Jalpaiguri and Dujeling Districts | Northern Mesta | 207.00 | 197.00 | 187.00 | 177.00 | 160.00 | 157.00 |
| | (ii) West Dinajpur District | Semi-Northern Mesta | 216.00 | 206.00 | 196.00 | 186.00 | 169.00 | 166.00 |
| | (iii) Malda District | West Bengal Desal Mesta | 216.50 | 206.50 | 196.50 | 186.50 | 169.50 | 166.50 |
| | (iv) Murshidabad, Bankura and Birbhum Districts | Selected Murshidabad Mesta | 218.50 | 208.50 | 198.50 | 188.50 | 171.50 | 168.50 |
| | | Murshidabad Mesta | 204.00 | 194.00 | 184.00 | 174.00 | 157.00 | 154.00 |
| | (v) Nadia, Midnapur, Burdwan, 24-Parganas, Hooghly & Howrah Distt. | Daisee Mesta | 223.50 | 213.50 | 203.50 | 193.50 | 176.50 | 173.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7. | Madhya Pradesh | M.P. Mesta | 204.00 | 194.00 | 184.00 | 174.00 | 157.00 | 154.00 |
| 8. | Uttar Pradesh | Lakhimpur Mesta | 205.50 | 195.50 | 185.50 | 175.50 | 158.50 | 155.50 |
| 9. | Andhra Pradesh | Bimli | 212.50 | 202.50 | 192.50 | 182.50 | 165.50 | 162.50 |

NOTE :—The varieties of Mesta specified in column No. 3 include similar varieties of mesta under different trade name/trades.